

चंडीगढ़, 8 अक्टूबर- भारत निर्वाचन आयोग हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2019 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 9 अक्टूबर, 2019 को हरियाणा में आया। अपने दो दिवसीय इस दौरे में आयोग की ओर से राजनैतिक दलों, स्टेट नोडल अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा, निर्वाचन आयुक्त श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चंद्रा 9 अक्टूबर, 2019 को चंडीगढ़ के ललित होटल पहुंचेंगे और शाम करीब 4.00 बजे राजनैतिक दलों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद शाम साढ़े 6.00 बजे हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और स्टेट नोडल अधिकारियों के साथ भी चुनावों को लेकर बैठक होगी।

उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर, 2019 मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा, निर्वाचन आयुक्त श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चंद्रा स्वीप प्रदर्शनी का उदघाटन करेंगे। उसके बाद 10.00 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आयोग की हरियाणा के मंडलायुक्तों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, एडीजीपी, पुलिस रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक होगी, जिसमें विधानसभा चुनाव बारे विस्तार से चर्चा की जाएगी। दोपहर 2:45 बजे आयोग की हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद 3:45 बजे मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा, निर्वाचन आयुक्त श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चंद्रा आयोग प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया से रुबरु होंगे।
क्रमांक-2019

हरियाणा में साढ़े 9 करोड़ से ज्यादा की शराब, मादक पदार्थ और नकद राशि की गई जब्त

चंडीगढ़, 8 अक्टूबर- हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2019 के दौरान राज्य में पुलिस और आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा अब तक 9 करोड़ 67 लाख 5 हजार 130 रुपये की शराब, नकद राशि और मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं।

हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा अब तक 121229 लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 74 लाख 20 हजार 448 रुपये है। आबकारी विभाग द्वारा 24254 लीटर शराब पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 60 लाख 91 हजार 60 रुपये है। इस प्रकार आबकारी और पुलिस विभाग द्वारा कुल 145483 लीटर शराब पकड़ी गई है, जिसकी कुल कीमत 3 करोड़ 35 लाख 11 हजार 508 रुपये है।

उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा अब तक 2 करोड़ 68 लाख 17 हजार 419 रुपये की नकद राशि पकड़ी गई है। इसके अलावा, फलाइंग स्कॉड, स्टेटिक सर्विलेंस टीमों द्वारा मादक

पदार्थ भी जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 3 करोड़ 63 लाख 76 हजार 203 रुपये है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा अब तक 117867 लाइसेंस हथियारों को जमा किया जा चुका है। इसके साथ ही पुलिस ने बिना लाइसेंस 173 हथियारों को भी जब्त किया है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की कोई अशांति पैदा न हो इसलिए पुलिस द्वारा राज्य में 437 जगहों पर नाकाबंदी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने प्रदेशभर में 92787 बोतल देशी शराब, 56516 बोतल इंग्लिश शराब, 4004 बोतल बीयर, 124 बोतल अवैध शराब, 656.57 कि.ग्रा. गांजा, 134.89 कि.ग्रा. पॉपी हस्क, 1.36 कि. ग्राम हेरोइन, 9.280 कि.ग्रा. अफीम, 2.16 किलोग्राम स्मैक, 255 कि.ग्रा. लाहन, 2.50 कि.ग्रा. चरस, 634 ग्राम चीटा, 27.832 कि.ग्रा. चूरापोस्त, 673 सूल्फा, 322 कि.ग्रा. जब्त किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा 49 लाख 62 हजार 500 रुपये के नकली नोट भी जब्त किये गए हैं।

क्रमांक-2019